

**वर्ष 2010-2011 के बजट अनुमान पर
वित्त सचिव का स्मृति पत्र**

बजट का सार :- निम्नलिखित विवरण वर्ष 2008-09 के लेखे, वर्ष 2009-10 का बजट अनुमान तथा पुनरीक्षित अनुमान और वर्ष 2010-11 का बजट अनुमान दर्शाता है ।

(जब तक अन्यथा उल्लेख न हो, आंकड़े करोड़ रुपये में)

क्रमांक	शीर्ष	2008-2009 लेखा	2009-2010 बजट अनुमान	2009-2010 पुनरीक्षित अनुमान	2010-2011 बजट अनुमान
I	राजस्व प्राप्तियां (क+ख)	15662.76	18897.22	18575.61	20526.35
क.	राज्य का राजस्व	8795.93	9774.90	10121.52	11826.93
	1 कर राजस्व	6593.72	7029.56	6692.04	7505.47
	2 कर भिन्न राजस्व	2202.21	2745.34	3429.48	4321.46
ख.	केन्द्र से प्राप्तियाँ	6866.83	9122.32	8454.09	8699.42
	3 केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा	4257.91	5463.79	4368.96	4805.88
	4 सहायक अनुदान	2608.92	3658.53	4085.13	3893.54
II	पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7+8)	1909.49	3027.21	3965.08	3609.90
	5 उधार एवं अग्रिम की वसूली	534.87	749.40	990.08	979.05
	6 विविध पूंजीगत प्राप्तियां	1.78	0.00	0.00	0.00
	7 शुद्ध लोक ऋण	-103.02	2027.81	2500.00	2175.85
	8 लोक लेखों से शुद्ध प्राप्तियां	1475.86	250.00	475.00	455.00
III	कुल प्राप्तियां (I+II)	17572.25	21924.43	22540.69	24136.25
IV	आयोजनेत्तर व्यय (9+11+12)	8385.68	10038.97	10584.13	11085.85
	9 राजस्व व्यय (ब्याज भुगतान सम्मिलित)	8372.75	10024.32	10570.45	11071.09
	10 ब्याज भुगतान	1077.52	1079.02	1099.75	1208.04
	11 पूंजीगत व्यय	1.46	1.22	0.33	1.41
	12 ऋण एवं अग्रिम	11.47	13.43	13.35	13.35

V	आयोजना व्यय (13+14+15)	8840.39	12172.13	12090.25	13599.58
	13 राजस्व व्यय	5420.95	8066.74	8163.43	8595.48
	14 पूंजीगत व्यय	2938.69	3568.01	2982.45	4066.29
	15 ऋण एवं अग्रिम	480.75	537.38	944.37	937.81
VI	कुल व्यय (IV+V)	17226.07	22211.10	22674.38	24685.43
VII	राजस्व व्यय (9+13)	13793.70	18091.06	18733.88	19666.57
VIII	पूंजीगत व्यय (11+14)	2940.15	3569.23	2982.78	4067.70
IX	ऋण एवं अग्रिम (12+15)	492.22	550.81	957.72	951.16
X	राजस्व घाटा (I-VII)	1869.06	806.16	-158.27	859.78
XI	राजकोषीय (वित्तीय) घाटा (I+5+6)- VI)	-1026.66	-2564.48	-3108.69	-3180.03
XII	प्राथमिक घाटा (XI-10)	50.86	-1485.46	-2008.94	-1971.99

2. सामान्य स्थिति का संक्षेप -

विवरण	2008-2009	2009-2010	2009-2010	2010-2011
	लेखा	बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	बजट अनुमान
क. प्रारंभिक शेष	-694.36	-898.56	-348.68	-482.37
ख. संचित निधि				
एक. राजस्व प्राप्तियां				
(क) कर राजस्व	10851.63	12493.35	11061.00	12311.36
(ख) कर भिन्न राजस्व	2202.21	2745.34	3429.48	4321.45
(ग) केन्द्र से सहायक अनुदान	2608.92	3658.53	4085.13	3893.54
योग - एक	15662.76	18897.22	18575.61	20526.35
दो. राजस्व व्यय				
(क) आयोजना	5420.95	8066.74	8163.43	8595.48
(ख) आयोजनेतर	8372.75	10024.32	10570.45	11071.09
योग - दो	13793.70	18091.06	18733.88	19666.57
आधिक्य(+)/घाटा (-)	1869.06	806.16	-158.27	859.78
तीन. पूंजीगत प्राप्तियां	1.78	0.00	0.00	0.00
चार. पूंजी व्यय				
(क) आयोजना	2938.69	3568.01	2982.45	4066.29
(ख) आयोजनेतर	1.46	1.22	0.33	1.41
योग - चार	2940.15	3569.23	2982.78	4067.70
पांच. लोक ऋण				
(क) प्राप्तियां	386.34	2817.10	3288.73	3078.06
(ख) संवितरण	489.36	789.29	788.73	902.21
योग - पांच (शुद्ध)	-103.02	2027.81	2500.00	2175.85

छ: - ऋण तथा अग्रिम				
(क) प्राप्तियां	534.87	749.40	990.08	979.05
(ख) संवितरण				
(एक) आयोजना	480.75	537.38	944.37	937.81
(दो) आयोजनेतर	11.47	13.43	13.35	13.35
योग	492.22	550.81	957.72	951.16
योग - छ: (शुद्ध)	42.65	198.59	32.36	27.89
सात. आकस्मिकता निधि मे विनियोजन	0.00	0.00	0.00	0.00
शुद्ध संचित निधि	-1129.68	-536.67	-608.69	-1004.18
ग. आकस्मिकता निधि (शुद्ध)	-0.50	0.00	0.00	0.00
घ. लोक लेखा				
(क) प्राप्तियां	58557.63	37647.02	55073.28	55281.86
(ख) संवितरण	57081.77	37397.02	54598.28	54826.86
योग घ (शुद्ध)	1475.86	250.00	475.00	455.00
वर्ष के शुद्ध लेन देन	345.68	-286.67	-133.69	-549.18
ड. अंतिम शेष	-348.68	-1185.23	-482.37	-1031.55

3. राजस्व प्राप्तियाँ -

विवरण	2008-2009	2009-2010	2009-2010	2010-2011
	लेखा	बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	बजट अनुमान
(क) राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ -				
(i) कर राजस्व	6593.72	7029.56	6692.04	7505.47
(ii) कर भिन्न राजस्व	2202.21	2745.34	3429.48	4321.46
योग (क)	8795.93	9774.90	10121.52	11826.93
(ख) केन्द्र से प्राप्त राजस्व -				
(i) केन्द्रीय करों का हिस्सा	4257.91	5463.79	4368.96	4805.88
(ii) केन्द्र से सहायक अनुदान	2608.92	3658.53	4085.13	3893.54
- आयोजना भिन्न अनुदान	631.69	623.44	1059.44	754.65
- राज्यों की आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	1066.48	1810.00	1881.56	1817.59
- केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के लिए अनुदान	93.47	256.22	205.58	224.53
- केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान	817.28	968.87	938.55	1096.77
योग (ख)	6866.83	9122.32	8454.09	8699.42
कुलयोग	15662.76	18897.22	18575.61	20526.35

राज्य के राजस्व में वृद्धि के कारण

1. राज्य के कर राजस्व में कमी मुख्यतया ब्रिकी कर तथा स्टॉप एवं पंजीयन शुल्क के कारण है ।
2. कर भिन्न राजस्व में वृद्धि मुख्यतः लघु सिंचाई के अंतर्गत औद्योगिक संस्था से अग्रिम कर अदायगी के रूप में प्राप्ति के कारण है ।
3. केन्द्रीय करों के हिस्से में कमी का कारण केन्द्रीय बजट के अनुसार राज्य बजट में प्रावधान करने के कारण है ।
4. केन्द्र से सहायक अनुदान में वृद्धि मुख्यतः राज्य की आयोजनागत योजनाओं तथा आयोजनेत्तर अनुदान में वृद्धि के कारण है ।

राज्य के राजस्व में वृद्धि के कारण

1. राज्य कर राजस्व में वृद्धि मुख्यतः वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प और पंजीकरण, बिजली पर कर और शुल्क तथा वाहनों पर कर में वृद्धि के कारण है ।
2. राज्य के करेत्तर राजस्व में वृद्धि मुख्यतः खनिज, वन तथा सिंचाई से प्राप्त होने वाली आय में वृद्धि के कारण तथा विद्युत कंपनियों से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय के अनुमान के कारण है ।
3. राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि का प्रतिशत 10.50 है ।

4. राजस्व व्यय -

विवरण	2008-2009	2009-2010	2009-2010	2010-2011
	लेखा	बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	बजट अनुमान
आयोजना	5420.95	8066.74	8163.43	8595.48
आयोजनेतर	8372.75	10024.32	10570.45	11071.09
; kx	13793.70	18091.06	18733.88	19666.57

(क) बजट अनुमान एवं पुनरीक्षित अनुमान 2009-2010 में भिन्नता के कारण

बजट अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान में वृद्धि 3.55 प्रतिशत की है। यह वृद्धि मुख्यतः समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन में बोनस दिये जाने तथा वेतन एवं पेंशन पुनरीक्षण पर होने वाले अतिरिक्त व्यय के कारण है।

(ख) पुनरीक्षित अनुमान 2009-2010 तथा बजट अनुमान 2010-2011 में भिन्नता के कारण

पुनरीक्षित अनुमान 2009-2010 से बजट अनुमान 2010-2011 में वृद्धि का प्रतिशत 4.98 है।

5. पूंजीगत व्यय -

विवरण	2008-2009	2009-2010	2009-2010	2010-2011
	लेखा	बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	बजट अनुमान
आयोजना	2938.69	3568.01	2982.45	4066.29
आयोजनेतर	1.46	1.22	0.33	1.41
; kx	2940.15	3569.23	2982.78	4067.70

पूंजीगत व्यय के पुनरीक्षित अनुमान 2009-2010 तथा बजट अनुमान 2010-2011 में वृद्धि का प्रतिशत 36.37 है।

पूंजीगत व्यय के पुनरीक्षित अनुमान 2009-2010 तथा बजट अनुमान 2010-2011 में वृद्धि का प्रतिशत 36.37 है।

6- 0; ; ds egRoi w/k 'k/k&

विवरण	2009-2010	2009-2010	2010-2011
	बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	बजट अनुमान
1 वेतन, भत्ते आदि	5719.77	5558.73	6734.11
2 मजदूरी	333.32	368.16	413.66
3 कार्यालय व्यय	344.72	352.61	388.3
4 छात्रवृत्तियाँ, वृत्तियाँ एवं अन्य हितलाभ	215.02	242.21	255.25
5 पेंशन	919.62	1058.75	1233.85
6 आर्थिक सहायता	1972.59	2041.10	1839.97
7 सहायक अनुदान	5338.27	5787.93	5441.64
8 अनुरक्षण	516.86	576.83	378.48
9 सामग्री और पूर्तियाँ	883.58	903.05	1055.67
10 वृहद निर्माण कार्य	980.77	853.05	980.77
11 लघु निर्माण कार्य	796.64	888.54	1177.74
12 मशीन और उपकरण	145.80	100.41	144.35
13 धनवेष्ठन	67.05	67.00	47.74
14 ब्याज अदायगी	1079.02	1099.75	1208.05
15 ऋण तथा अग्रिम	552.21	959.27	953.13
16 निर्माण कार्य	1654.60	1345.08	1793.25
17 अन्य	1972.42	1987.73	2053.71

7. लोक ऋण -

विवरण	2008-2009	2009-2010	2009-2010	2010-2011
	लेखा	बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	बजट अनुमान
प्राप्तियां				
(क) राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण -				
- बाजार ऋण	0.00	1500.00	2352.04	2000.00
- नाबार्ड से उधार	113.19	350.00	150.00	350.00
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से उधार	0.15	300.00	100.00	100.00
- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	0.00	180.00	180.00	180.00
- राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी राज्य प्रतिभूतियां	67.50	200.00	200.00	200.00
योग (क)	180.84	2530.00	2982.04	2830.00
(ख) केन्द्रीय सरकार से उधार और अग्रिम -				
- आयोजना भिन्न उधार	0.00	2.60	2.60	2.60
- राज्यों की आयोजनागत योजनाओं के लिये उधार	205.50	282.00	301.59	242.96
- केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिये उधार	0.00	2.50	2.50	2.50
योग (ख)	205.50	287.10	306.69	248.06
योग (क+ख)	386.34	2817.10	3288.73	3078.06

संवितरण

विवरण	2008-2009	2009-2010	2009-2010	2010-2011
	लेखा	बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	बजट अनुमान
(क) राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण -				
- बाजार ऋण	153.44	201.00	280.86	235.38
- भारतीय जीवन बीमा निगम से उधार	0.00	9.17	9.17	13.20
- भारतीय साधारण बीमा निगम से उधार	0.00	6.33	5.77	6.24
- नाबार्ड से उधार	98.65	117.98	117.98	131.12
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से उधार	8.10	8.10	8.13	7.28
- क्षतिपूर्ति और अन्य बाण्ड	48.32	48.32	48.32	48.32
- राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी राज्य प्रतिभूतियां	70.28	106.11	106.11	150.89
- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	0.00	180.00	98.86	180.00
योग (क)	378.79	677.01	675.20	772.43
(ख) केन्द्रीय सरकार से उधार और अग्रिम -				
- आयोजना - भिन्न उधार	0.99	0.99	0.99	0.76
- राज्यों की आयोजनागत योजनाओं के लिये उधार	108.51	110.01	111.26	127.79
- केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिये उधार	1.07	1.28	1.28	1.23
योग (ख)	110.57	112.28	113.53	129.78
योग (क+ख)	489.36	789.29	788.73	902.21
शुद्ध	-103.02	2027.81	2500.00	2175.85

(क) पुनरीक्षित अनुमान 2009-2010 तथा बजट अनुमान 2010-11 में भिन्नता के कारण

पुनरीक्षित अनुमान 2009-10 की तुलना में बजट अनुमान 10-11 में लोक ऋण प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः विभिन्न अधोसंरचनात्मक विकास कार्यों हेतु बाजार ऋण, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से अधिक ऋण प्राप्ति का अनुमान किये जाने के कारण है।

8. राज्य शासन द्वारा ऋण एवं अग्रिम -

विवरण	2008-2009	2009-2010	2009-2010	2010-2011
	लेखा	बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	बजट अनुमान
प्राप्तियां	534.87	749.40	990.08	979.05
संवितरण				
आयोजना	480.75	537.38	944.37	937.81
आयोजनेतर	11.47	13.43	13.35	13.35
; kx	492.22	550.81	957.72	951.16

9. लोक लेखा

विवरण	2008-2009	2009-2010	2009-2010	2010-2011
	लेखा	बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	बजट अनुमान
शुद्ध प्राप्तियां	1475.86	250.00	475.00	455.00

10. अन्तिम शेष -

विवरण	2008-2009	2009-2010	2009-2010	2010-2011
	लेखा	बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	बजट अनुमान
अन्तिम शेष	-348.68	-1185.23	-482.37	-1031.55

11. 2010-2011 में लेखे के विभिन्न क्षेत्रों के अधीन लेन-देनों के विस्तृत ब्योरे -

विवरण	प्राप्तियां	भुगतान	योग
राजस्व	20526.35	19666.57	859.78
पूंजी	0.00	4067.70	-4067.70
लोक ऋण	3078.06	902.21	2175.85
ऋण तथा अग्रिम	979.05	951.16	27.89
लोक लेखा	55281.86	54826.86	455.00
वर्ष का कुल लेन देन	79865.32	80414.50	-549.18
प्रारंभिक शेष			-482.37
अंतिम शेष			-1031.55

12. विशेष महत्व के तुलनात्मक आंकड़े

विवरण	2009-2010	2009-2010	2010-2011
	बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	बजट अनुमान
1. राज्य आयोजना - सामान्य	6012.27	6054.11	6570.87
2. अनुसूचित जनजाति उपयोजना	3585.90	3709.04	4010.30
2. अनुसूचित जाति उपयोजना	1265.76	1099.88	1605.39
4. अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिये अलावा राशियां	77.20	77.20	84.52
5. अनुसूचित जाति उपयोजना लिये अलावा राशियां	5.90	5.90	6.75
6. राज्य आयोजनागत योजनाओं का योग	10947.03	10946.13	12277.83
7. रक्षित निधियों से पोषित योजनायें	126.29	122.39	102.86
8. योग राज्य आयोजना	11073.32	11068.52	12380.69
9. केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	968.86	938.54	1096.77
10. केन्द्र क्षेत्रीय योजनाएं	256.22	205.58	224.53
11. निगम प्रवर्तित योजनाएं	0.01	0.01	0.45
12. समस्त आयोजना योजनाओं का वृहद् योग	12298.41	12212.65	13702.44

13. आयोजना के लिये संसाधन

विवरण	2009-2010	2009-2010	2010-2011
	बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	बजट अनुमान
एक- राज्य संसाधन			
1. राजस्व से शेष	5739.04	4562.21	5834.19
2. बाजार से ऋण	1299.00	2071.18	1764.62
3. राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	350.00	150.00	350.00
4. अल्प बचत में हिस्सा	300.00	200.00	200.00
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से उधार	200.00	100.00	100.00
6. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	571.57	1346.40	1314.29
7. बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर प्राप्त अनुदान	94.50	94.50	0.00
8. अनिधिबद्ध ऋण (शुद्ध)	14.25	105.00	105.00
योग - एक	8568.36	8629.29	9668.10
दो - केन्द्रीय सहायता			
1. राज्य शासन को	2092.00	2183.15	2060.55
योग - दो	2092.00	2183.15	2060.55
कुल संसाधन	10660.36	10812.44	11728.65
आयोजनागत परिव्यय	10947.03	10946.13	12277.83
संसाधनों में कमी / सुधार	-286.67	-133.69	-549.18
प्रारंभिक शेष	-898.56	-348.68	-482.37
अन्तिम शेष	-1185.23	-482.37	-1031.55

14. वर्ष 2010-11 में नवीन व्यय -

क्रमांक	मद	आयोजना	आयोजनेत्तर	योग
1.	राजस्व	277.98	142.08	420.06
2.	पूंजी	1059.98	0.66	1060.64
	योग	1337.96	142.74	1480.70

15. राज्य शासन की ऋण स्थिति -

मार्च, 2009 की स्थिति में अदेय ऋणों की स्थिति निम्नानुसार है -

क्रमांक	विवरण	jk'k
(क)	लोक ऋण	
1.	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	
1.	बाजार से ऋण	2297.90
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	20.29
3.	राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	602.97
4.	भारतीय सामान्य बीमा निगम से ऋण	10.90
5.	क्षतिपूर्ति एवं अन्य बाण्ड	386.65
6.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	27.58
7.	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	4829.78
	योग (1)	8176.07
2.	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2200.68
	योग (क)	10376.75
(ख)	अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ आदि	1702.84
	योग (क+ख)	12079.59

16.(अ) म. प्र. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 52(अ) तथा (ब) के तहत जिन प्रत्याभूतियों का प्रावधिक प्रभाजन किया गया है, उसके अनुसार राज्य शासन के हिस्से की प्रत्याभूति की अदेयता दिसम्बर, 2009 की स्थिति में निम्नानुसार है :-

क्रमांक	विवरण	राशि
1	नगर निगम, नगर पालिकाओं तथा विकास प्राधिकरणों के पक्ष में	3.32
2	मध्यप्रदेश वित्त निगम	54.75
3	मध्यप्रदेश विद्युत मंडल	*
4	मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल	0.36
5	मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ	20.24
; ₹ ¼/½		78.67

*पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश के विभाजन के फलस्वरूप इस ऋण के विभाजन संबंधी अभिलेख उपलब्ध न होने से ऋण राशि के 31.12.2009 की स्थिति में शेष की जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ब) राज्य निर्माण के पश्चात् राज्य शासन द्वारा जिन संस्थाओं के पक्ष में प्रत्याभूति दी गई है, उनकी दिसम्बर, 2009 की स्थिति में अदेयता निम्नानुसार है:-

क्रमांक	विवरण	₹'k
1	भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना	5.42
2	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	108.32
3	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक	350.87
4	नगर निगम, नगर पालिकाओं तथा विकास प्राधिकरणों के पक्ष में	38.17
5	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम	3.45
6	छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यवसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम	46.70
7	छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम	2.88
8	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल	383.14
9	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ	736.00
योग (ब)		1674.95
कुल योग (अ+ब)		1753.62

17. म.प्र. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 42 के तहत अविभाजित म. प्र. राज्य की आरक्षित निधियां जिनका विनिधान सरकारी लेखे से बाहर किया गया है, का प्रावधिक प्रभाजन किया गया है । इसके अनुसार छत्तीसगढ़ शासन के हिस्से की शासकीय प्रतिभूति (Securities) निम्नानुसार है:-

क्रमांक	विवरण	राशि
1	अकाल राहत निधि विनिवेश लेखा	0.49
2	राजस्व आरक्षित निधि विनिवेश लेखा	0.65
3	कृषि हेतु विकास निधि से विनिवेश लेखा	0.03
4	अन्य निधि विनिवेश लेखा	0.01
5	रोकड़ शेष विनिवेश लेखा	1.20
योग (अ)		2.38
संचित शोधन निधि		1043.64
योग (ब)		1043.64
कुल योग (अ+ब)		1046.02

18. बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर अधिनियमित छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 में निहित लक्ष्यों के संबंध में राज्य की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :-

1. राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3 प्रतिशत अनुमानित किया गया है ।
2. राजस्व आधिक्य सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.81 प्रतिशत अनुमानित किया गया है ।
3. कुल देयतायें सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 19.23 प्रतिशत है ।
4. राज्य सरकार के अन्य आकस्मिक दायित्व (प्रत्याभूति)सकल घरेलू उत्पाद के 1.50 प्रतिशत है।

19. बजट अनुमान 2010-11 में मुख्यतः राज्य आयोजना में 12.17 प्रतिशत तथा पूंजीगत व्यय में लगभग 36.37 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है । राजस्व आयोजनेत्तर व्यय में 4.74 प्रतिशत वृद्धि की गयी है, इसमें मुख्यतः वेतन में लगभग 25.48 प्रतिशत की वृद्धि, पेंशन में लगभग 16.54 प्रतिशत की वृद्धि तथा ब्याज भुगतान में लगभग 9.03 प्रतिशत की वृद्धि है । सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में विशेषकर सामाजिक क्षेत्र में लगभग 7.28 प्रतिशत की वृद्धि, आर्थिक क्षेत्र में 05.21 प्रतिशत तथा सामान्य क्षेत्र में 19.98 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान किया गया है ।

20. आयोजनागत प्रावधानों की विस्तृत जानकारी के लिए आवश्यक परिशिष्ट संलग्न किये गये हैं ।

jk; ig
22 Qjoj 2010

¼t; fl g½
foRr l fpo
NRrhl x<+ 'kkl u

परिशिष्ट - क
अर्थोपाय अनुमान 2010-2011

(रूपये करोड़ में)

विवरण	2008-2009 लेखा	2009-2010 बजट अनुमान	2009-2010 पुनरीक्षित अनुमान	2010-2011 बजट अनुमान
प्रारंभिक शेष	-694.36	-898.56	-348.68	-482.37
वर्ष के लेन देन				
राजस्व आधिक्य / कमी	1869.06	806.16	-158.27	859.78
पूंजी व्यय	2940.15	3569.23	2982.78	4067.70
लोक ऋण (शुद्ध)	-103.02	2027.81	2500.00	2175.85
राज्य शासन द्वारा ऋण (शुद्ध)	42.65	198.59	32.36	27.89
आकस्मिकता निधि (शुद्ध)	-0.50	0.00	0.00	0.00
लोक लेखा (शुद्ध)				
भविष्य निधि, आदि	73.74	34.25	125.00	125.00
आरक्षित निधि	266.47	101.40	87.00	226.11
जमा तथा अग्रिम	30.2	114.35	263.00	103.89
उच्चन्त तथा विविध	1024.8	0.00	0.00	0.00
प्रेषण	80.65	0.00	0.00	0.00
	1475.86	250.00	475.00	455.00
वर्ष के शुद्ध लेन देन	345.68	-286.67	-133.69	-549.18
अन्तिम शेष	-348.68	-1185.23	-482.37	-1031.55

राज्य शासन को बाह्य स्रोतों से बजट के अतिरिक्त प्राप्त होने वाली राशि				
स्कूल शिक्षा विभाग			(राशि करोड़ में)	
योजना का नाम	योजना का प्रकार - केन्द्र प्रवर्तित/केन्द्र क्षेत्रीय	योजना में राज्य का हिस्सा	वर्ष 2009-10 में अनुमानित प्राप्ति	वर्ष 2010-11 में अनुमानित प्राप्ति
सर्व शिक्षा अभियान	केन्द्र प्रवर्तित	35%	813.64	909.26
कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालय योजना	केन्द्र प्रवर्तित	35%	17.83	20.06
एन.पी.ई.जी.एल.	केन्द्र प्रवर्तित	35%	8.91	10.03
आर.एम.एस.ए.	केन्द्र प्रवर्तित	25%	273.14	358.80
भारत साक्षर योजना	केन्द्र प्रवर्तित	25%	10.50	10.50
योग			1124.03	1308.64
कृषि विभाग				
राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा योजना	केन्द्र प्रवर्तित	-	92.43	92.43
सूक्ष्म सिंचाई परियोजना	केन्द्र प्रवर्तित	30%	11.59	14.26
राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना	केन्द्र प्रवर्तित	15%	12.08	22.40
योग			116.10	129.09
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग				
इंदिरा आवास योजना	केन्द्र प्रवर्तित	25%	247.82	94.38
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	केन्द्र प्रवर्तित	25%	65.94	72.54
डी.आर.डी.ए. प्रशासन योजना	केन्द्र प्रवर्तित	25%	8.25	9.08
सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम	केन्द्र प्रवर्तित	25%	20.70	0.00
एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम	केन्द्र प्रवर्तित	9%	36.10	52.27
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	केन्द्र प्रवर्तित	10%	2148.90	2295.00
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	केन्द्र क्षेत्रीय	0%	708.00	900.00
योग			3235.71	3423.27
ऊर्जा विभाग				
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	केन्द्र प्रवर्तित	10%	414.00	390.00
योग			414.00	390.00
लोक निर्माण विभाग				
राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण/मरम्मत	केन्द्र प्रवर्तित	20%	110.00	117.00
योग			110.00	117.00
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग				
सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान	केन्द्र प्रवर्तित	10%	126.00	126.00
ग्रामीण पेयजल योजना	केन्द्र प्रवर्तित	50%	35.00	80.00

योजना का नाम	योजना का प्रकार - केन्द्र प्रवर्तित/केन्द्र क्षेत्रीय	योजना में राज्य का हिस्सा	वर्ष 2009-10 में अनुमानित प्राप्ति	वर्ष 2010-11 में अनुमानित प्राप्ति
योग			161.00	206.00
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग				
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	केन्द्र प्रवर्तित	15%	268.29	382.74
राज्य एड्स नियंत्रण समिति	केन्द्र प्रवर्तित	7.56%	3.50	3.50
एकीकृत रोग निगरानी परियोजना	केन्द्र प्रवर्तित	0%	1.55	3.90
राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण	केन्द्र प्रवर्तित	0%	26.82	102.38
राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	केन्द्र क्षेत्रीय	0%	1.60	1.90
राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम	केन्द्र क्षेत्रीय	0%	7.00	13.54
पुनरीक्षित क्षय नियंत्रण कार्यक्रम	केन्द्र क्षेत्रीय	0%	6.32	14.64
राष्ट्रीय बीमा योजना	केन्द्र प्रवर्तित	25%	45.00	60.00
योग			360.08	582.60
महायोग			5520.92	6156.60